

## भोजपुर में नकली तेल व पुदीन हरा बरामद, पिता व पुत्र गिरफ्तार



Publish Date: Sat, 20 Feb 2021 11:06 PM (IST) Author: Jagran

आरा। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र अन्तर्गत सहार टोला में शनिवार को पुलिस ने एक ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली आंवला तेल व पुदीन हरा की बिक्री किए जाने के मामले में बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है।

आरा। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र अन्तर्गत सहार टोला में शनिवार को पुलिस ने एक ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली आंवला तेल व पुदीन हरा की बिक्री किए जाने के मामले में बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने काफी मात्रा में नकली आंवला तेल व पुदीन हरा बरामद किया है। साथ ही धंधेबाज पिता व पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। इसे लेकर रंजीत कुमार ने संबंधित थाना में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार डाबर कंपनी के पदाधिकारियों को सहार में डाबर आंवला तेल एवं पुदीन हरा की नकली पैकिंग करने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके बाद नई दिल्ली से कंपनी के प्रमुख जांचकर्ता रंजीत सिंह एवं सहयोगी अरविंद सिंह सहार पहुंचे। स्थानीय प्रशासन की मदद से सहार निवासी नारायण साह के किराना दुकान में छापेमारी की गई। जिसमें भारी मात्रा में नकली डाबर आंवला तेल, पुदीन हरा एवं खाली शीशी व रैपर बरामद किया गया। जिसका मूल्य लगभग छह लाख रुपये आंका जा रहा है। सूत्रों की मानें तो छापेमारी के दौरान 1400 शीशी आंवला तेल, 100 खाली बोतल, 9000 रैपर एवं पुदीने हरा के 695 बोतल, 290 खाली बोतल, 3500 रैपर बरामद किया गया है। जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सहार निवासी नारायण साव व पुत्र अनीश कुमार को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद नकली ब्रांड बेचने वालों में हड़कंप व्याप्त हो गया है। पहले से कंपनी वालों को सूचना मिल थी कि इस क्षेत्र में नकली तेल व पुदीन हरा की बिक्री हो रही है।

Source: <https://www.jagran.com/bihar/bhojpur-fake-oil-and-pudin-green-recovered-in-bhojpur-father-and-son-arrested-21389616.html>